



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग-III — खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2007/कार्तिक 28, 1929

No. 221]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2007/KARTIKA 28, 1929

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

चण्डीगढ़, 13 जुलाई, 2007.

सं. ई-3/पी.जी.आई./2007/2567.-- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, विनियम, 1967 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है; अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (संशोधन) विनियम, 2007 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ विनियम, 1967, उपबन्ध 3 तथा उप-धारा (क) के तदाधीन संशोधित नियम 34 निम्न अनुसार पढ़ा जाए :-

“बशर्ते कि जहां दो अथवा अधिक सीधी भर्तियां, जिनकी एक ही तारीख को नियुक्ति होती है और जहां चयन समिति उनकी परस्पर मेरिट निर्दिष्ट नहीं करती तो उनकी वरिष्ठता निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी :-

- (क) (i) यदि सीधी भर्तियां बाहरी व्यक्तियों में से भरी जाती हैं, तो वरिष्ठता के लिए जन्म तिथि निर्णायक कारक होगा अर्थात् आयु में बड़ा व्यक्ति वरिष्ठ होगा।
- (क) (ii) यदि सीधी भर्तियां दोनों बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ संस्थान में कार्यरत कर्मिकों में से भरी जाती हैं, तो बाहर से भर्ती व्यक्ति की तुलना में संस्थान में कार्यरत व्यक्ति का दर्जा वरिष्ठता में ऊपर होगा।
- (क) (iii) जहां सीधी भर्तियां सभी संस्थान के कर्मिकों में से भरी जाती हैं, तो उनकी वरिष्ठता उनके पुराने ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तय की जाएगी। संकाय के रूप में (वरिष्ठ आवासियों/निदर्शकों/अनुशिक्षकों आदि को छोड़कर) पुराने ग्रेड में वरिष्ठता एक समान होने पर उनकी परस्पर वरिष्ठता उनकी सेवा अवधि के आधार पर तय की जाएगी। यदि सेवा की अवधि भी एक समान होती है तो मामलों का निपटान करने के लिए जन्म तिथि का प्रयोग किया जाएगा अर्थात् आयु में बड़ा व्यक्ति वरिष्ठ होगा।”

संस्थान के प्राधिकारी द्वारा

के. के. तलवार, निदेशक

[विज्ञापन-III/IV/असा./86/07]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सं. सा.का.नि. 571 दिनांक 18-4-1967 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित थे तथा बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये :-

- (1) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.54/69-एम. ई.-पी. जी. आई. दिनांक 24-2-70

- (2) भारत सरकार अधिसूचना संख्या ई. 1.56/69-एम. ई. पी. जी. आई. दिनांक 26-3-70
- (3) भारत सरकार अधिसूचना दिनांक 11-3-74
- (4) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या एफ. 3/एन.एफ. 8 (1)-76 दिनांक 18-5-76
- (5) सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई 1(1)-पी.जी.आई.-76 दिनांक 14-9-76
- (6) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/1/77-एम.ई. (पी. जी.) दिनांक 9-5-78 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित सा.का.नि. अधिसूचना संख्या ई 3/एन. एफ./78 दिनांक 18-5-78
- (7) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/1/82-एम.ई. (पी. जी.) दिनांक 23-3-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना दिनांक 15-6-84
- (8) पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन. एफ./7(2), 80 दिनांक 15-6-84
- (9) पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन. एफ./84-6804 दिनांक 15-6-84
- (10) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/3/84-एम. ई. (पी. जी.) दिनांक 17-12-84 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई. 3/एन. एफ./84/74438 दिनांक 26-12-84
- (11) भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना दिनांक 26-12-84
- (12) भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना संख्या बी.17011/4/85-एम. ई. (पी. जी.) दिनांक 13-9-85
- (13) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/4/85-एम. ई. (पी. जी.) दिनांक 17-10-85 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई. 3/एन. एफ./85/61505 दिनांक 17-10-85
- (14) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17011/2/88-एम. ई. (पी. जी.) दिनांक 9/16-8-89 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई. 3/एन. एफ./7(2)/88 दिनांक 12-9-89
- (15) पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या 31/2-टी.आर.जी. 68/4476-4527 दिनांक 23-1-96
- (16) पी.जी.आई. अधिसूचना संख्या इ. 3/एफ. सी. आई. (10)/1101 दिनांक 5-5-97
- (17) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन दिनांक 30-11-98 सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 715(अ) पी. जी. आई. -एम. ए.-98/31599 दिनांक 30-11-98
- (18) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र दिनांक 23-2-99 द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 152(अ) पी. जी. आई. -एम. ए.-99/4795 दिनांक 24-2-99
- (19) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/24/95-एम.ई. (पी. जी.)/एम. ई.-डेस्क-2 दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/एन. एफ./2001/पी. जी. आई./722 दिनांक 22-3-2001
- (20) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/5/2000-एम.ई. (पी. जी.) दिनांक 12-3-2001 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 2/एन. एफ./2001/पी. जी. आई./4990, दिनांक 30-3-2001
- (21) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/21/2000-एम. ई. (पी. जी.)(भाग II) दिनांक 15-5-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/पी. जी. आई./2002/2748 दिनांक 10-6-2002
- (22) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/48/2000-एम. ई. डैस्क-II, दिनांक 8-7-2002 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/2002/4056 दिनांक 30-7-2002
- (23) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्र संख्या बी. 17020/84/2005-एम. ई.-II दिनांक 21-11-2005 के द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन सहित पी. जी. आई. अधिसूचना संख्या ई 3/पी. जी. आई./2005/7587 चण्डीगढ़ दिनांक 21-11-2005।

**POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL
EDUCATION AND RESEARCH
NOTIFICATION**

Chandigarh, the 13th July, 2007

No. E3/PGI/2007/2567.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 32 of the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966 the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Postgraduate

Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Regulations, 1967 namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Amendment) Regulations, 2007.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Regulation 1967, proviso 3 and sub-section (a) thereunder, of Regulation 34 is amended to read as under :—

“Provided further that where two or more direct recruits who were appointed on the same date and where the selection committee had not indicate their inter-se merit their seniority will be determined as follows :—

- (a) (i) If the direct recruits are outsider(s), the date of birth would be the deciding factor for seniority i.e. the older person would be senior;
- (a) (ii) Where the direct recruits are both outsider(s) as well as insider(s), the insider(s) will rank higher in seniority vis-a-vis outsider(s); and
- (a) (iii) Where the direct recruits are all insider(s), their inter-se seniority would be decided based on their inter-se seniority in the previous grade. The seniority in the previous grade being the same, their inter-se seniority would be decided based on length of service as faculty (excluding senior residents/demonstrators/tutors etc.) In case the lengths of service are also equal, the date of birth would be used to decide the issue i.e. the older person would be senior.

By the Authority of the Institute
K.K. TALWAR, Director
[ADVT-III/IV/Exty./86/07]

Foot Note : Principal regulations were published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 571 dated 18-4-1967 and amended vide nos.

- (1) GOI Notification No.E1. 54/69 ME-PGI dt. 24-2-70
- (2) GOI Notification No. 156/69 ME-(PG) dt. 26-3-70
- (3) GOI Notification dt. 11-3-74
- (4) PGI Notification No. F.3/NF8(i)- 76 dt. 18-5-76
- (5) GSR Notification No. EI(1)-PGI-76 dt. 14-9-76
- (6) GSR Notification No. E3/NF/78 dated 18-5-78 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/1/77 - ME (PG) dated 9-5-78
- (7) PGI Notification No. dt. 15-6-84 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17011/1/82-ME

(PG) dated 23-3-84.

- (8) PGI Notification No. E3/NF/7 (II), 80 dt.15-6-84
- (9) PGI Notification No. E3/NF/84-6804 dt. 15-6-84.
- (10) PGI Notification No. E3/NF/84/74438 dt. 26-12-84 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/3/84-ME (PG) dated 17-12-84.
- (11) PGI Notification No. 26-12-84 with the approval of GOI.
- (12) GOI MOHFW Notification No. V. 17011/4/85-ME(PG) dt. 13-9-85.
- (13) PGI Notification No. E3/NF/85/61505 dt. 17-10-85 with the approval of GOI vide MHFW letter No.17 011/4/85 -ME(PG) date 17-10-85.
- (14) PGI Notification No. E3/NF/7 (ii) /88 dated 12-9-1989 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17011/2/88 -ME (PG) dated 9/16-8-1989.
- (15) PGI Notification No. 31/2-Trg. 68/4476-4527 dt. 23-1-96.
- (16) PGI Notification No. E3/FCI(10)/1101 dt. 5-5-97.
- (17) Notification No. GSR 715(E) -PGI-MA-98/31599 dt. 30-11-98 with Central Government approval dt. 30-11-98.
- (18) Notification No. G.S.R. 152(E) PGI-MA-99/4795 dt. 24-2-1999 with the approval of GOI vide MHFW letter dated 23-2-1999.
- (19) PGI Notification No. E3/NF/2001/PGI/722 dated 22-3-2001 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V.17020/24/95- ME (PG)/ME Desk -II dated 12-3-2001.
- (20) PGI Notification No. E2/NF/2001/PGI/4990 dated 30-3-2001 with the approval of GOI vide MHFW letter No. V. 17020/5/2000- ME(PG) dated 12-3-2001.
- (21) PGI Notification No. E3/PGI/2002/2748 dated 10-6-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No. V. 17020/21/2000-ME (PG) (Part-II), dated 15-5-2002.
- (22) PGI Notification No. E3/PGI/2002/4056 dated 30-7-2002 with the approval of GOI MOHFW, letter No.V. 17020/48/2000-ME Desk-II, dated 8-7-2002.
- (23) PGI Notification No. E3/PGI/2005/7587 dated Chandigarh 21 Nov., 2005 with the approval of GOI MOH&FW, letter No. V. 17020/84/2005-ME-II, dated 21-11-2005.